



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072024-255243
CG-DL-E-06072024-255243

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2503]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 5, 2024/आषाढ 14, 1946

No. 2503]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 5, 2024/ASHADHA 14, 1946

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2024

का.आ. 2638(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1370 (अ) तारीख 14 मार्च 2024, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 15 मार्च 2024, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में कूड आइल पाइपलाइन परियोजनान्तर्गत मुन्द्रा (गुजरात) से एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, पचपदरा, (राजस्थान) तक कच्चा तेल परिवहन के लिए गुजरात राज्य में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, (राजस्थान) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख -26 अप्रैल 2024 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पचात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, (राजस्थान) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, (राजस्थान) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे / ब्लोक नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
तालुका : मुंद्रा			जिला : कच्छ		
			राज्य : गुजरात		
1	बाराई	229	00	24	10
		247/पैकी 1	00	15	59
		सर्वे नं. 207/17/पैकी 1 और 207/पैकी 36 के बीच	00	15	79
		सर्वे नं. 207/पैकी 36 और 207/पैकी 42/पैकी 1 के	00	28	10
2	लूणी	468/पैकी 22/पैकी 5 (सरकारी - ग्राम पंचायत)	00	22	27
		468/पैकी 4	00	12	20
3	वाघूरा	214	00	01	87
तालुका : अंजार			जिला : कच्छ		
			राज्य : गुजरात		
1	मथडा	201/2	00	11	53
		208/2	00	29	38
		248/2	00	07	56
		248/1	00	28	88
2	मोडसर	37/001	00	28	85
3	चांद्रोडा	614/पैकी 3/2	00	05	90
4	चान्द्राणी	465/पैकी 2	00	27	20
		465/पैकी 1	00	01	63
5	खोखरा	387/3/पैकी 1	00	05	76
6	रापर	690/पैकी 34	00	11	27
		257/पैकी 3	00	16	65
7	दुधई	504/2	00	05	51
8	धमडका	540/पैकी 2	00	16	57
		535/पैकी 2	00	25	00
		535/पैकी 2/पैकी 1	00	29	00
		सर्वे नं. 425/पैकी 50 और 425/पैकी 37 के बीच में	00	04	62
		379	00	12	44
9	नींगाल	16/पैकी 2	00	01	41
		99/2	00	34	24
		430/2	00	01	00
10	कोटडा	55/1/004	00	33	86
		207/3	00	23	62
11	सापेडा	126/पैकी 1	00	05	74
तालुका : भचारु			जिला : कच्छ		
			राज्य : गुजरात		
1	भुजपर	99/पैकी 34	00	22	70

क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे / ब्लोक नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
		99/पैकी34/पैकी1	00	19	45
		99/पैकी12	00	21	15
		99/पैकी 21	00	15	35
2	कबराउ-पांकडसर	324/1	00	17	90
		519/पैकी 1 (सरकारी)	00	03	00
3	भचरु	397/पैकी1	00	22	37
4	करमरीया	181/पैकी 2	00	04	56
5	वोंघडा	112/002	00	14	80
		109	00	17	57
6	विजपासर	336	00	06	72
7	रामपर	443/1	00	28	32
8	आधोई	877/पैकी1	00	13	45
		886/1	00	06	22
		806	00	02	45
		595/पैकी1	00	01	01
		459	00	00	50
		444/2	00	04	38
		279	00	01	26
9	शीवलखा	1242/2	00	03	00
		70	00	01	54
		120/2 (सरकारी)	00	03	54
तालुका : रापर			जिला : कच्छ		
			राज्य : गुजरात		
1	सई	520/1/पैकी 1	00	40	44
		258/1 पैकी /1	00	10	28
		259/3	00	25	10
2	डेडरवा	136/1	00	01	96
		140/1	00	24	31
		141/1	00	10	23
		124/4	00	08	99
3	गोविंदपर	66/1	00	43	23
4	टींडलवा	510/पैकी 4	00	21	07
5	बांभणसर	92/पैकी 1	00	11	65
		96/पैकी 32	00	05	17
		91/पैकी 1	00	26	84
		91/पैकी 2	00	08	40
		91/पैकी 3	00	08	34
		90/1	00	21	50
6	लाखागढ	155/4	00	01	34
		159/1	00	12	71
		165/2	00	11	04
		181	00	22	19
		26/2	00	08	29
		432	03	41	61
7	आडेसर	771/ पैकी 1 (सरकारी)	00	05	41
8	कीडीयानगर	बिननम्बरी (सरकारी)	00	19	26
		832/1	00	02	88
		916	00	01	80
		918/2	00	00	60
		1046/पैकी1	00	00	40

क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे / ब्लोक नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
		1089/पैकी1	00	13	35
		1088/पैकी1	00	11	41
9	छोटापर	34/पैकी 1	00	12	64
10	भीमासर	672/3/पैकी1	00	01	56
		672/3/पैकी2	00	09	50
		36/1	00	03	76
		34/3	00	12	43
तालुका : सान्तलपुर		जिला : पाटण	राज्य : गुजरात		
1	डालडी	206 (पुरानी सर्वे नं. 193)	00	01	57
2	कोरडा	423	00	17	60
		245/4पैकी	00	39	85
		323	00	24	53
3	दैसर	142.001	00	26	16
		142.002			
		142.003			
		143	00	41	40
		147	00	03	92
4	गढा .	32	00	00	40
		164	00	00	40
5	पीपराला	1255	00	02	54
6	रणमलपुरा	190	00	00	95
7	बक्त्रा	957	00	04	16
		955	00	01	10
		954	00	03	90
		956	00	01	00
8	बाबरा	206/2	00	06	79
		202/पैकी 2 (सरकारी-राजमार्ग)	00	10	75
तालुका : भाभर		जिला : बनासकांठा	राज्य : गुजरात		
1	इन्दरवा जूना	159/पैकी 1	00	04	45
2	हरकूडीया	48	00	02	89
		172/पैकी 1	00	09	72
		167	00	23	49
		66	00	02	97
3	सनेसडा	249/पैकी 2	00	11	80
		533	00	10	82
		536	00	11	20
		556	00	22	58
4	सुथार नेसडी	22	00	05	25
5	रडकीया	60/पैकी 1	00	03	22
		198/पैकी 1	00	20	01
		198/पैकी 2	00	27	34
		59	00	24	34
6	तनवाड	33/पैकी 3	00	27	39
		23	00	03	70
		24	00	02	50
7	वजापुर जूना	78	00	02	23
8	सणवा (ला)	258.001	00	01	70
		256	00	01	20
9	वडाणा	94	00	01	25

क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे / ब्लोक नं.	क्षेत्रफल					
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर			
1	2	3	4	5	6			
10	देवकापडी	227	00	05	76			
		261	00	17	22			
		268	00	02	21			
		264	00	06	28			
तालुका : थराद			जिला : बनासकांठा			राज्य : गुजरात		
1	पडादर	119 / पैकी 2 / पैकी 1	00	08	58			
2	सणावीया	408	00	39	36			
		409	00	20	33			
		313 / पैकी 2	00	10	99			
3	झोटा	279	00	41	31			
4	भोरडू	297	00	01	15			
		226	00	04	30			
5	चांगडा	456	00	06	90			
		497	00	11	34			
6	पठामडा	131	00	00	90			
7	मोटी पावड	78	00	12	50			
		28	00	23	67			
8	खेगारपुरा	298	00	21	67			
9	मेघपुरा	38	00	02	79			
		119	00	11	15			
10	मोरथल	725	00	12	79			
		858	00	05	20			
		769	00	16	99			
तालुका : धानेरा			जिला : बनासकांठा			राज्य : गुजरात		
1	भांजणा	575	00	37	00			
2	खापरोल	100	00	05	16			
3	नेनावा	1140 / पैकी 1	00	35	91			
		1140 / पैकी 2						
		806	00	10	14			
		847	00	06	15			
तालुका : वाव			जिला : बनासकांठा			राज्य : गुजरात		
1	बैयक	72001	00	04	43			

[फा. सं. आर-12031/4/2019-ओ-आर-I/ई-32788]

शशि शेखर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2024

S.O. 2638(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 1370 (E) Dated 14th March 2024, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 15th March 2024, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the State of Gujarat for transportation of Crude Oil from Mundra (Gujarat) to HPCL Rajasthan Refinery Limited, Pachpadra (Rajasthan), a Pipeline should be laid by HPCL Rajasthan Refinery Limited, (Rajasthan).

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 26th April 2024.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in HPCL Rajasthan Refinery Limited, (Rajasthan) is free from all encumbrances.

HPCL Rajasthan Refinery Limited, (Rajasthan) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Sr. No.	Name of Village	Survey / Block No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
TALUKA: MUNDRA			DISTRICT: KACHCHH		
			STATE: GUJARAT		
1	BAROI	229	00	24	10
		247/P1	00	15	59
		In Bet Suy No. 207/17/P1 & 207/P36	00	15	79
		In Bet Suy No. 207/36 & 207/P42/P1	00	28	10
2	LUNI	468/P22/P5 (G/L – G/P)	00	22	27
		468/P4	00	12	20
3	VAGHURA	214	00	01	87
TALUKA : ANJAR			DISTRICT : KACHCHH		
			STATE: GUJARAT		
1	MATHADA	201/2	00	11	53
		208/2	00	29	38
		248/2	00	07	56
		248/1	00	28	88
2	MODSAR	37/001	00	28	85
3	CHANDRODA	614/P 3/2	00	05	90
4	CHANDRANI	465/P2	00	27	20
		465/P1	00	01	63
5	KHOKHRA	387/3/P1	00	05	76
6	RAPAR	690/P34	00	11	27
		257/P3	00	16	65
7	DUDHAI	504/2	00	05	51
8	DHAMADKA	540/P2	00	16	57
		535/P2	00	25	00
		535/P2/P1	00	29	00
		In Bet Suy No. 425/P50 & 425/P 37 (G/L-Nala)	00	04	62
		379	00	12	44
9	NINGAL	16/P2	00	01	41
		99/2	00	34	24
		430/2	00	01	00
10	KOTDA	55/1/004	00	33	86
		207/3	00	23	62

Sr. No.	Name of Village	Survey / Block No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
11	SAPEDA	126/P1	00	05	74
TALUKA : BHACHAU			DISTRICT : KACHCHH		
			STATE: GUJARAT		
1	BHUIPAR	99/P34	00	22	70
		99/P34/P1	00	19	45
		99/P12	00	21	15
		99/P21	00	15	35
2	KABRAU PANKADSAR	324/1	00	17	90
		519/P1 (G/L)	00	03	00
3	BHACHAU	397/P1	00	22	37
4	KARMARIYA	181/P2	00	04	56
5	VONGHDA	112/002	00	14	80
		109	00	17	57
6	VIJPASAR	336	00	06	72
7	RAMPAR	443/1	00	28	32
8	ADHOI	877/P1	00	13	45
		886/1	00	06	22
		806	00	02	45
		595/P1	00	01	01
		459	00	00	50
		444/2	00	04	38
		279	00	01	26
9	SHIVALAKHA	1242/2	00	03	00
		70	00	01	54
		120/2 (G/L)	00	03	54
TALUKA: RAPAR			DISTRICT: KACHCHH		
			STATE: GUJARAT		
1	SAI	520/1/P1	00	40	44
		258/1/P1	00	10	28
		259/3	00	25	10
2	DEDARWA	136/1	00	01	96
		140/1	00	24	31
		141/1	00	10	23
		124/4	00	08	99
3	GOVINDPAR	66/1	00	43	23
4	TINDALVA	510/P4	00	21	07
5	BAMBHANSAR	92/P1	00	11	65
		96/P 32	00	05	17
		91/P 1	00	26	84
		91/P 2	00	08	40
		91/P 3	00	08	34
		90/1	00	21	50
6	LAKHAGADH	155/4	00	01	34
		159/1	00	12	71
		165/2	00	11	04
		181	00	22	19
		26/2	00	08	29
		432	03	41	61
7	ADESAR	771/P1 (G/L)	00	05	41
8	KIDIYANAGAR	Bin Numbri (G/L)	00	19	26
		832/1	00	02	88
		916	00	01	80
		918/2	00	00	60

Sr. No.	Name of Village	Survey / Block No.	Area					
			Hect	Are	Sq. Mt.			
1	2	3	4	5	6			
		1046/P1	00	00	40			
		1089/P1	00	13	35			
		1088/P1	00	11	41			
9	CHHOTAPAR	34/P1	00	12	64			
10	BHIMASAR	672/3/P1	00	01	56			
		672/3/P2	00	09	50			
		36/1	00	03	76			
		34/3	00	12	43			
TALUKA : SANTALPUR			DISTRICT : PATAN			STATE: GUJARAT		
1	DALDI	206 (Old Survey No.193)	00	01	57			
2	KORDA	423	00	17	60			
		245/4P	00	39	85			
		323	00	24	53			
3	DAISAR	142.001	00	26	16			
		142.002						
		142.003						
		143	00	41	40			
		147	00	03	92			
4	GADHA	32	00	00	40			
		164	00	00	40			
5	PIPARALA	1255	00	02	54			
6	RANMALPURA	190	00	00	95			
7	BAKUTRA	957	00	04	16			
		955	00	01	10			
		954	00	03	90			
		956	00	01	00			
8	BABARA	206/2	00	06	79			
		202/P2 (G/L- SH)	00	10	75			
TALUKA :BHABHAR			DISTRICT : BANASKANTHA			STATE: GUJARAT		
1	INDARVA JUNA	159/P 1	00	04	45			
2	HARKUDIYA	48	00	02	89			
		172/P1	00	09	72			
		167	00	23	49			
		66	00	02	97			
3	SANESDA	249/P2	00	11	80			
		533	00	10	82			
		536	00	11	20			
		556	00	22	58			
4	SUTHAR NESDI	22	00	05	25			
5	RADAKIYA	60/P 1	00	03	22			
		198/P1	00	20	01			
		198/P2	00	27	34			
		59	00	24	34			
6	TANVAD	33/P 3	00	27	39			
		23	00	03	70			
		24	00	02	50			
7	VAJAPUR JUNA	78	00	02	23			
8	SANVA (LA)	258.001	00	01	70			
		256	00	01	20			
9	VADANA	94	00	01	25			
10	DEVKAPDI	227	00	05	76			
		261	00	17	22			
		268	00	02	21			

Sr. No.	Name of Village	Survey / Block No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
		264	00	06	28
TALUKA : THARAD			DISTRICT : BANASKANTHA		
			STATE: GUJARAT		
1	PADADAR	119/P2/P1	00	08	58
2	SANAVIA	408	00	39	36
		409	00	20	33
		313/P2	00	10	99
3	ZETA	279	00	41	31
4	BHORDU	297	00	01	15
		226	00	04	30
5	CHANGADA	456	00	06	90
		497	00	11	34
6	PATHAMDA	131	00	00	90
7	MOTIPAVAD	78	00	12	50
		28	00	23	67
8	KHEGARPURA	298	00	21	67
9	MEGHPURA	38	00	02	79
		119	00	11	15
10	MORTHAL	725	00	12	79
		858	00	05	20
		769	00	16	99
TALUKA : DHANERA			DISTRICT : BANASKANTHA		
			STATE: GUJARAT		
1	BHANJNA	575	00	37	00
2	KHAPROL	100	00	05	16
3	NENAVA	1140/P1	00	35	91
		1140/P2			
		806	00	10	14
		847	00	06	15
TALUKA : VAV			DISTRICT : BANASKANTHA		
			STATE: GUJARAT		
1	BAIYAK	72001	00	04	43

[F. No. R-12031/4/2019-OR-I/E-32788]

SHASHI SHEKHAR SINGH, Under Secy.